

through imports; (iii) restraining undue expansion in money supply; (iv) curbing anti-social activities such as hoarding and black-marketing and (v) increasing production. The price situation is being kept under constant watch and further suitable measures will be taken as and when necessary.

#### **Anticipated Losses of Public Sector Undertakings**

748. SHRI CHHANGUR RAM:

SHRI RASHEED MASOOD:

SHRI RAJESH KUMAR  
SINGH:

SHRI RAM VILAS PASWAN:

PROF. AJIT KUMAR MEHTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the public sector undertakings are likely to incur heavy losses during the current financial year as compared to the losses suffered by them during the earlier years;

(b) if so, the losses anticipated by the public sector undertakings (giving names thereof) during the current financial year as compared to the losses suffered by them during the last two years;

(c) whether Government have made any assessment with regard to the functioning of these public sector undertakings; and

(d) if answer to part (c) be in the affirmative, the result thereof and the steps taken/proposed to be taken by the Government to minimise the losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) A reliable estimate of the 1980-81 public sector operating results will be possible only by about October, 1981. In the 1980-81 budget estimates, among the principal public sector enterprises, the Fertilizer and Coal groups may be expected to reduce their losses

while the Steel Group may end with a reduced profit as compared to 79-80. The Petrochemicals, Shipping and Engineering groups also may be expected to do better. On the basis of a quick survey conducted by the Bureau of Public Enterprises for the quarter ending 30th June, 1980, all the public enterprises put together have suffered a net loss estimated approximately at Rs. 161 crores after providing income-tax of Rs. 38 crores by the profit-earning enterprises.

(b) A statement showing the losses incurred by the losing enterprises in the first quarter of 1980-81 as well as in the previous two years is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-1381/80*]. The losses for the first quarter are provisionally estimated.

(c) and (d). The Administrative Ministries constantly review the performance of the undertakings under their control for taking corrective steps wherever necessary. Recently Government have appointed an Expert Committee under the Chairmanship of Shri Mohammad Fazal, Member of the Planning Commission, to examine the performance in respect of major Enterprises in the Steel, Engineering, Coal, Chemicals and Fertilizers and Shipping sectors. The Committee's work is in progress.

#### **Privileges and Perks enjoyed by Vice-President of Super Bazars**

749. SHRI CHHANGUR RAM. Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the privileges and perks being enjoyed by the Vice-President of the Super Bazars over and above the normal entitlement;

(b) if so, whether Government have made any inquiry into the circumstances under which the extra privileges have been provided to the Vice-President of Super Bazars; and

(c) the expenditure incurred by the Super Bazar/authority concerned in providing extra privileges?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES (SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY) (a) to (c). It is presumed that the Question relates to the Super Bazar, Delhi which is under the administrative control of this Ministry. The Vice-President of the Super Bazar, Delhi is not enjoying any privileges and perks over and above the normal entitlement.

विदेशी मुद्रा रिजर्व में वृद्धि करने के उपाय

750. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्रीमती कृष्णा साही :

श्री जे. एम. यनातवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में कमी आने से संबंधित समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों में क्या सच्चाई है ;

(ख) सही स्थिति दर्शाने वाले वास्तविक आंकड़े क्या हैं , और

(ग) विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में कमी के क्या कारण हैं तथा उसमें वृद्धि करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री

(श्री मंगल भाई दारोट) :

(क) और (ख) : मार्च 1980 के अन्त में सोने और एस० डी० आर० को छोड़ कर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5163.66 करोड़ रुपये का था जो 7 नवम्बर, 1980 को 4965.72 करोड़ रुपये का रह गया, अर्थात् इसमें 197.94 करोड़ रुपये की कमी हो गई। यह राशि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की न्यास निधि (ट्रस्ट फंड) और प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा (कम्पेन्सेटरी फाइनेंसिंग फेसिलिटी)

से की जाने वाली कुल मिला कर लगभग 815 करोड़ रुपये की निकासियों को हिसाब में लेने के बाद आंकी गई है।

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार में होने वाले परिवर्तन अन्य देशों के साथ भारत के लेनदेनों का निवल परिणाम होते हैं, जिनका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शोधन शेष के आंकड़ों का संचलन कर लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा। किन्तु स्थूल संकेतों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और एस० डी० आर० को छोड़ कर) में कमी मुख्य रूप से बहुत बड़े व्यापारिक घाटे के कारण हुई है। यह घाटा एक ओर मध्यवर्ती वस्तुओं और कच्चे माल, खाद्य तेलों जैसी आम उपयोगी की वस्तुओं के अधिक आयात, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, लौह और अलौह धातुओं आदि की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आयात बिल के काफी बढ़ जाने और दूसरी निर्यातों के विकास की अपेक्षाकृत धीमी गति होने के कारण हुआ है।

सरकार विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करने और उसके भावी विकास के मार्ग में आने वाली रूकावटों को दूर करने के लिए कई उपाय करनी रही है जिनमें ये शामिल है।

1. कोयला, बिजली, रेल, पत्तन जैसे मुख्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन और सामान्य मूलभूत ढांचे में सुधार के उपाय करना ताकि औद्योगिक क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके और आन्तरिक उत्पादन में सुधार करना तथा आयात की आवश्यकताओं को भी यथासंभव कम करना।

2. निर्यात की क्षमता वाली मर्दों के उत्पादन पर जोर देने जैसे निर्यात को